

प्रेस नोट दिनांक 27.04.2021

थाना सीबीगंज जनपद बरेली

थाना सीबीगंज #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 131/21 धारा 302 में वांछित अभियुक्त रिजवान को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 12 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय बरेली एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/21 धारा-302 भादवि की तमामी विवेचना व साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आये अभियुक्त रिजवान पुत्र सोहराब खान नि0-किशोर बाजार बिहारीपुर थाना कोतवाली जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से आला कल्ल देसी तमंचा 12 बोर 02 अदद जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त से घटना के बारे में जानकारी की गयी तो अभि0 रिजवान ने बताया कि मृतक नजर हुसैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था हम दोनो का एक दूसरे के घर काफी आना जाना था मेरा दोस्त नजर मेरी बहनो पर बुरी नजर रखता था जब मुझे इस बात का पता चला और इस बात का विरोध किया तो नजर ने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी और चुप रहने के लिए कहा तभी मैने नजर को मारने की योजना बनायी। जिसके तहत रिजवान ने दिनांक 22.04.2021 को शाम करीब 7 बजे मृतक नजर हुसैन को बुलाया और बहाने से गोविन्दापुर चलने की बात कही और मृतक नजर हुसैन की मोटर साइकिल पर पीछे बैठकर गोविन्दापुर जाने लगे जैसे ही नजर हुसैन सनौआ से गोविन्दापुर को जाने वाले खडन्जे पर गोविन्दापुर से पहले रिजवाने ने तमंचे से नजर हुसैन के सिर के पीछे गोली मारकर हत्या कर दी। जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.रिजवान पुत्र सोहराब नि0-किशोर बाजार बिहारीपुर थाना कोतवाली जनपद बरेली

बरामदगी का विवरण-

1-एक अदद नाजायज तमंचा देशी 12 बोर

2-दो अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-133/21 धारा 3/25 A.ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

2.उ0नि0 श्री बालिस्टर त्यागी थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

3.का0 1351 राजेश कुमार थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

4.का0 1355 जसवीर सिंह थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

**प्रभारी निरीक्षक
थाना सीबीगंज, बरेली**